

वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2015-आश्विन 17, शके 1937

**भाग 3 ( 1 )**

**विज्ञापन**

**न्यायालयों की सूचनाएं**

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH,  
INDORE-BENCH**

**ORIGINAL JURISDICTION**

**Company Petition No. 10/2008**

**In the matter of The Companies Act, 1956 &**

**The Companies Act, 2013**

**AND**

**In The matter of:-**

**Board for Industrial and financial Reconstruction (BIFR)**

*Versus*

**M/s. Simplex Industries Ltd. (In-Liqn.)**

**Regd. Off :-11/2, Dr. Roshan Singh Bhandari Marg, Indore (M.P.)**

**ADVERTISEMENT OF PETITION**

Pursuant to the order dated 30/07/2015 of the Hon'ble High Court of M.P., Indore Bench, NOTICE is hereby given that a petition for winding up of the above named company by the High Court of the State of Madhya Pradesh at Indore was on the day of 28/04/2008, represented /forwarded to the said Court by the **Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR)** with reference to this Court to wind up the company and that the said petition is directed to be heard before the Court on 28/09/2015.

Any creditor or Contributory or other person desirous of supporting or opposing the making of an order on the said petition should send to the petitioner or his advocate or office of the Official Liquidator, Indore, notice of his intention signed by him or his advocate with his name and address, so as to reach the petitioner or his advocate not later than 5 days before the date fixed for the hearing of the petition, and appear at the hearing for the purpose in person or by his advocate. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same.

Any affidavit intended to be used in opposition to the petition should be filed in court, and a copy served on the petitioner or his advocate or office of the Official Liquidator, Indore, not less than 5 days before the date fixed for the hearing.

Dated: 22-9-2015

Place: Indore

(375-B.)

**M. K. SAHU,**  
OFFICIAL LIQUIDATOR,  
HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, INDORE  
1<sup>st</sup> Floor, Old CIA Building, Opp. GPO,  
Residency Area, Indore (M.P.).

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH,  
INDORE-BENCH**

ORIGINAL JURISDICTION

Company Petition No. 09/2008

**In the matter of The Companies Act, 1956 &  
The Companies Act, 2013**

**AND**

**In The matter of:-**

**Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR)**

*Versus*

**M/s. Anjani Solvents India Ltd. (In-Liqn.)**

**Regd. Off :-At Kuber House, 2<sup>nd</sup> Floor, 162, Kanchan Bagh, Indore (M.P.)**

**ADVERTISEMENT OF PETITION**

Pursuant to the order dated 27/07/2015 of the Hon'ble High Court of M.P., Indore Bench, NOTICE is hereby given that a petition for winding up of the above named company by the High Court of the State of Madhya Pradesh at Indore was on the day of 28/04/2008, represented /forwarded to the said Court by the **Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR)** with reference to this Court to wind up the company and that the said petition is directed to be heard before the Court on 28/09/2015.

Any creditor or Contributory or other person desirous of supporting or opposing the making of an order on the said petition should send to the petitioner or his advocate or office of the Official Liquidator, Indore, notice of his intention signed by him or his advocate with his name and address, so as to reach the petitioner or his advocate not later than 5 days before the date fixed for the hearing of the petition, and appear at the hearing for the purpose in person or by his advocate. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same.

Any affidavit intended to be used in opposition to the petition should be filed in court, and a copy served on the petitioner or his advocate or office of the Official Liquidator, Indore, not less than 5 days before the date fixed for the hearing.

Dated: 22-9-2015

Place: Indore

(376-B.)

**M. K. SAHU,**  
OFFICIAL LIQUIDATOR,  
HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, INDORE  
1<sup>st</sup> Floor, Old CIA Building, Opp. GPO,  
Residency Area, Indore (M.P.).

**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH  
BENCH AT INDORE**

ORIGINAL JURISDICTION

COMPANY PETITION No. 20 OF 2015

**In the matter of the Companies Act, 1956 (1) of 1956 ;**

**AND**

**In the matter of Sections 100 to 103 of the Companies Act, 1956,**

**AND**

**Petitioner: Saurabh Cement Pvt. Limited**

Registered Office at Samyak Tower,

Ground Floor, 16/3, Old Palasia, Indore (M.P.)

**NOTICE OF PETITION**

A Petition under Section 100 to 103 of the Companies Act, 1956 for confirming the reduction of the paid-up

capital from Rs. 90,57,410 (Rupees Ninety Lakh Fifty Seven Thousand Four Hundred and Ten) to Rs. 1,00,000 (Rupees One lakh) by returning the surplus amount i.e., 89,57,410 (Rupees Eighty Nine Lakh Fifty Seven Thousand Four Hundred Ten) , being in excess of the wants of the Company be paid to the shareholders of the above Petitioner Company, was presented by the Advocate of the Petitioner Company on 04.08.2015 and the same shall be heard by the Hon'ble Court on 26.10.2015.

Any person desirous of supporting or opposing the said Petition should send to the Petitioner at its office above or to their Advocate notice of such intention signed by him or his advocate so as to reach not later than 2 days before the date fixed for hearing of the Petition. Any affidavit intended to be used in opposition to the Petition should be filed in the Hon'ble Court and a copy be served on the Petitioner or their Advocate. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.

Indore, Dated: 24/09/2015

**B. M. MAHESHWARI,**  
Advocate for the Petitioner,  
25, Milinda Manor, II Floor,  
Opp. Central Mall 2, R.N.T. Marg,  
Indore-452001 (M.P.).

(377-B.)

### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री जैसल जैन पुत्री श्री संजय जैन का विद्यालय रिकार्ड में नाम जैसल गर्ग अंकित हो गया है. जिसे सही किया जा रहा है. अतः अब उसे जैसल जैन के नाम से संबोधित किया जाये.

(380-बी.)

संजय जैन,  
ए-123, समाधिया कॉलोनी, लश्कर,  
ग्वालियर.

#### नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मेरी हाईस्कूल की अंकसूची में मेरा नाम चारू चित्रा अवस्थी अंकित है. मैंने अपना उपनाम हटाकर सिर्फ चारू चित्रा लिखना आरम्भ कर दिया है.

अतः मुझे भविष्य में भी चारू चित्रा के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

(381-बी.)

पुराना नाम :  
( चारू चित्रा अवस्थी )

नया नाम :  
( चारू चित्रा )  
पुत्री-प्रभात समीर अवस्थी,  
निवासी-एफ-2, श्रीनाथ अपार्टमेंट, बलवंतनगर,  
थाटीपुर, ग्वालियर.

#### CHANGE IN NAME

I, Deepak Jain S/o Rajkumar Jain R/o 791, Bhawani Nagar, Sector-E, Industrial Area, Sanwer Road, Indore-452015 (MP), do hereby state that my name is spelled as "DIPAK JAIN" in some of the my educational mark sheet and certificates. I shall henceforth be known as "DEEPAK JAIN" for all purpose.

Old Name :  
( DIPAK JAIN )  
(382-B.)

New Name :  
(DEEPAK JAIN)

#### CHANGE OF NAME

I, Alok changed my name to Alok Pandey and now I would be known as Alok Pandey.

Old Name :  
( ALOK )

(382-B.)

New Name :  
(ALOK PANDEY)  
Add:-F2, IDA, Officers Colony,  
Scheme No. 54, Vijay Nagar,  
Indore (M.P.).

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स सावित्री मिनरल्स, पाठक वार्ड, कटनी फर्म पंजीयन क्रमांक 1847, सन् 1986-1987 में पंजीकृत की गई थी एवं इसमें 3 भागीदार क्रमशः- (1) श्रीमती रेखा देवी पाठक पति श्री अरूण कुमार पाठक, (2) आशीष कुमार पाठक एवं (3) श्री मनीष कुमार पाठक दोनों के पिता श्री अरूण कुमार पाठक यहकि दिनांक 01-02-2011 को उपरोक्त फर्म में से एक भागीदार श्रीमती रेखा देवी पाठक अत्याधिक वृद्धावस्था के कारण पृथक् हो गई हैं एवं उक्त फर्म से उनका भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई भी लेन-देन नहीं रहेगा एवं दिनांक 01-02-2011 से भागीदारी श्रीमती रेखा देवी के स्थान पर 02 नये भागीदार श्री आनन्द शर्मा पिता श्री महावीर प्रसाद शर्मा एवं योगेश शर्मा पिता श्री विजय कुमार शर्मा उक्त फर्म में नये साझेदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. अतः उक्त फर्म में नये भागीदारों का उक्त फर्म में सम्मिलित होने में यदि किसी ऋण संस्था, वित्तीय संस्था, शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्था व्यक्ति विशेष या किसी अन्य को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन से 15 दिन के भीतर लिखित आपत्ति कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन, जबलपुर के कार्यालय में अथवा मेरे कार्यालय में उपस्थित होकर पेश कर सकते हैं एवं उक्त फर्म में दिनांक 05-05-2012 को वर्तमान में चार भागीदार हैं— (1) आशीष पाठक, (2) मनीष पाठक दोनों के पिता श्री अरूण कुमार पाठक, (3) श्री आनन्द शर्मा पिता श्री महावीर प्रसाद शर्मा, (4) श्री योगेश शर्मा पिता श्री विजय कुमार शर्मा हैं एवं दिनांक 05-05-2012 से उक्त फर्म से दो भागीदार (1) आशीष पाठक, (2) मनीष पाठक दोनों के पिता श्री अरूण पाठक उक्त फर्म में से पृथक् हो गये हैं. अतः उक्त फर्म में सम्मिलित/पृथकीकरण में होने में यदि किसी ऋण संस्था, वित्तीय संस्था, शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्था व्यक्ति विशेष या किसी अन्य को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन से 15 दिन के भीतर लिखित आपत्ति कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन, जबलपुर के कार्यालय में अथवा मेरे कार्यालय में उपस्थित होकर पेश कर सकते हैं.

विकास नाथन,

(अधिवक्ता)

कार्या. बंगला नं. 5, पदम का बाड़ा,  
बारेलाल चौक, जबलपुर (म.प्र.).

(379-बी.)

### PUBLIC NOTICE

Public is hereby informed that in relation to M/S VENKAT CONSTRUCTION, Chhatarpur existing partners 1. Lalit Prasad Agarwal S/o Shri Narmada Prasad Agarwal 2. Amit Mishra S/o Shri Ramesh Mishra, 3. Amitabh Mishra S/o Shri Ramesh Mishra and 4. Maheshwar Nath Tiwari S/o Shri Gouri Shankar Tiwari Retired from the firm with effect from 01/06/2015 and on the same date new partner Ajay Mourya S/o Shri Shayam Mourya is admitted to the firm/ Now as on date partners of the firm are Shr. K.C. Raju, Smt. Radha and Shri Ajay Mourya. Therefore public is informed to deal with there three persons only in relation to all business matters of the firm.

K. C. RAJU,

(Partner)

M/s VENKAT CONSTRUCTION,  
Bada Malhara, Dist. Chhatarpur (M. P.)

(378-B.)

### सार्वजनिक सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स पाराशर एक्सप्लोसिब्स, कार्यालय म. नं.-34, ग्राम-मानकी, पुलिस स्टेशन, बक्सवाहा, तहसील-बक्सवाहा, जिला-छतरपुर (म.प्र.) के अभी चार भागीदार हैं जिसमें 1. श्री दिनेश कुमार पाठक पुत्र स्व. भगवती प्रसाद पाठक, निवासी-001, गंगा अपार्टमेंट, ग्राउंड फ्लोर, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.), 2. मनीष पाराशर पुत्र दिनेश चन्द्र पाराशर, निवासी-"दीक्षा", 572/सी/30-ए, गाँधी पुतला के सामने, सुरेंद्रगढ़, सेमिनारी हिल्स, नागपुर-440006 (महाराष्ट्र) स्थायी निवासी-8/311, भोगीपुरा, शाहगंज, आगरा-282010 (उत्तर प्रदेश), 3. आशीष पाराशर पुत्र दिनेश चन्द्र पाराशर, निवासी-"दीक्षा", 572/सी/30-ए, गाँधी पुतला के सामने, सुरेंद्रगढ़, सेमिनारी हिल्स, नागपुर-440006 (महाराष्ट्र) एवं 4. राजेश श्रीवास्तव पुत्र लक्ष्मी नारायण श्रीवास्तव, निवासी-4/258, बालूगंज, आगरा-282001 (उत्तर प्रदेश) के नाम शामिल हैं. लेकिन अब इस फर्म मैसर्स पाराशर एक्सप्लोसिब्स, छतरपुर (म.प्र.) की भागीदारी से आपसी सहमती के साथ स्वेच्छा से श्री दिनेश कुमार पाठक दिनांक 19-06-2015 को अलग हो गए हैं तथा फर्म का समस्त कार्य अब श्री मनीष पाराशर, श्री आशीष पाराशर तथा श्री राजेश श्रीवास्तव द्वारा ही संचालित किया जायेगा.

अतः आज दिनांक तक दिनेश कुमार पाठक द्वारा मैसर्स पाराशर एक्सप्लोसिब्स छतरपुर के नाम से कोई लेन-देन बाकी हो तो 15 दिवस तक अपना दावा प्रस्तुत करें. इसके बाद किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं किया जायेगा.

For : Parashar Explosives,

मनीष पाराशर  
राजेश श्रीवास्तव  
दिनेश कुमार पाठक  
आशीष पाराशर  
(Partner).

(383-बी.)

### सार्वजनिक सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स पीताम्बरा एक्सप्लोसिव्स, कार्यालय म. नं.-27, पुलिस स्टेशन-प्रकाश बम्होरी, ग्राम-बदोरकलां, तहसील-गौरिहार, जिला-छतरपुर (म.प्र.) के अभी तीन भागीदार हैं जिसमें 1. श्री दिनेश कुमार पाठक पुत्र स्व. भगवती प्रसाद पाठक, निवासी-001, गंगा अपार्टमेंट, ग्राउंड फ्लोर, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.), 2. मनीष पाराशर पुत्र दिनेश चन्द्र पाराशर, निवासी-"दीक्षा", 572/सी/30-ए, गाँधी पुतला के सामने, सुरेंद्रगढ़, सेमिनारी हिल्स, नागपुर-440006 (महाराष्ट्र) 3. आशीष पाराशर पुत्र दिनेश चन्द्र पाराशर, निवासी-"दीक्षा", 572/सी/30-ए, गाँधी पुतला के सामने, सुरेंद्रगढ़, सेमिनारी हिल्स, नागपुर-440006 (महाराष्ट्र) के नाम शामिल हैं। लेकिन अब इस फर्म मैसर्स पीताम्बरा एक्सप्लोसिव्स, छतरपुर (म.प्र.) की भागीदारी से आपसी सहमती के साथ स्वेच्छा से मनीष पाराशर एवं आशीष पाराशर दिनांक 19-06-2015 को अलग हो गए हैं तथा फर्म का समस्त कार्य अब श्री दिनेश कुमार पाठक, पुत्र स्व. भगवती प्रसाद पाठक, निवासी-गंगा अपार्टमेंट, ग्राउंड फ्लोर, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा एकल स्वामित्व में चलाया जायेगा।

अतः आज दिनांक तक मनीष पाराशर एवं आशीष पाराशर द्वारा मैसर्स पीताम्बरा एक्सप्लोसिव्स छतरपुर के नाम से कोई लेन-देन बाकी हो तो 15 दिवस तक अपना दावा प्रस्तुत करें। इसके बाद किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं किया जायेगा।

For : Pitambra Explosives,

दिनेश कुमार पाठक,

(Partner).

(384-बी.)

### भागीदारी संशोधन सूचना

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन हटा, जिला दमोह का भागीदारी संशोधन 8 सितम्बर, 2011 को निष्पादित किया गया है। इसमें पूर्व भागीदार जी. एस. चावला, निवासी 141, मालवीय नगर, न्यू मार्केट, भोपाल स्वास्थ्य कारणों से फर्म से उपरोक्त दिनांक को विमुक्त हुए हैं। उनके स्थान पर चतुर्थ भागीदार के रूप में इंद्रपाल पिता श्री शिवचरण पटेल को भागीदार के रूप में फर्म में उपरोक्त दिनांक को शामिल किया गया है। फर्म में पूर्व की भांति चार भागीदार ही रहेंगे। उपरोक्त संशोधन में किसी भागीदार या संबंधित व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस में सप्रमाण आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। समय-सीमा के पश्चात् किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

वास्ते फर्म

इन्द्रपाल पटेल,

Partner.

मेसर्स श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन हटा,

जिला दमोह.

(386-बी.)

### विविध

#### निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर, 2015

क्र.जी.बी./दो(40)2015/2721.—आईटी विभाग की वेबसाइट <https://mpeproc.gov.in> से पारपत्र पुस्तिका (तकनीकी विवरण अनुसार) मुद्रण हेतु इंडियन बैंक एसोसियेशन (I.B.A.) में गोपनीय कार्य हेतु पंजीकृत प्रिन्टर्स से पेपर सहित मुद्रण, बंधन, परिवहन एवं अन्य कार्य की समस्त कर सहित प्रति बुकें करें दिनांक 14 अक्टूबर, 2015 अपराह्न 2.00 बजे तक की-डेट्स अनुसार आमंत्रित की जाती हैं।

2. ऑनलाईन तकनीकी निविदा की हार्डकापी, पेपर नमूने अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित, शर्तों पर सहमति, पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर सहित की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाईन तकनीकी भाग को दिनांक 14 अक्टूबर, 2015 को अपराह्न 4.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष पोर्टल से डाउनलोड किया जावेगा एवं हार्डकापी के प्रस्तुत दस्तावेजों को खोला जावेगा।

3. किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन/निविदा निरस्त होने की सूचना <https://mpeproc.gov.in> पर उपलब्ध रहेगी।

संजीव सिंह,

नियंत्रक,

शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,

मध्यप्रदेश, भोपाल.

(527)

## न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़

टीकमगढ़, दिनांक 11 सितम्बर, 2015

प्र. क्र. 1/बी-113 (1) 2014-15.

प्रपत्र-4

[नियम-5 (1) देखिए ]

[लोकन्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) और मध्यप्रदेश लोकन्यास अधिनियम, 1962 का नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक प्यारेलाल घोष तनय कूरे घोष एवं अन्य निवासी कारी, तहसील टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत परिशिष्ट-1 में वर्णित अचल सम्पत्ति एवं परिशिष्ट-2 में वर्णित चल सम्पत्ति का पंजीयन लोक न्यास में करने के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मेरे न्यायालय में दिनांक 14 अक्टूबर, 2015 को उक्त आवेदन पर विचार किया जावेगा। यदि कोई व्यक्ति उक्त न्यास या सम्पत्ति के सम्बन्ध में हित रखता है और कोई आपत्ति (या सुझाव) प्रस्तुत करना चाहता है, तो इस सूचना के प्रकाशन से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित रूप स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से दिनांक 14 अक्टूबर, 2015 को मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

### परिशिष्ट-1

(लोक न्यास और सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम	:	श्री श्री 108 श्री राव बानेत्रा जू देव बुन्देलखण्ड क्षेत्रिय घोष समाज श्यामपुरी कारी, तहसील टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.).
अचल सम्पत्ति	:	(ए)-बाबा राव बानेत्रा जू देव की कृषि भूमि गोपालपुरा भाटा, तहसील व जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

खसरा नम्बर	रकबा	लगान
1	2	3
79	0.040	1.00
80	0.17	0.94
81	0.158	0.63
82	0.129	0.50
171	0.214	0.62
186	0.032	0.06
187	0.299	0.19
188	0.036	0.25
196	0.101	0.50
197	0.093	1.25
198	0.016	2.13
568	0.206	1.37
569	0.506	1.06
571	0.849	0.19
572	0.599	0.25
657	0.442	0.12
1407/203	0.069	1.12
1408/203	0.109	3.69

1	2	3
1410/203	0.045	0.00
1433/803	0.470	0.00
1454/949	1.125	0.00
किता-21	रकबा 5.708	लगान 15.87

(बी)-उपरोक्त बाबा राव बानेत्रा जू देव की कृषि भूमि गोपालपुरा भाटा, तहसील व जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

खसरा नम्बर	रकबा	लगान
1	2	3
949/1454	2.68	2.11
568	0.51	0.08
569	1.25	1.04
571	2.10	2.02
572	1.48	1.06
657	1.09	1.01
803/1433	1.06	1.02
805/1434	0.84	0.12
203/1408	0.26	0.04
79	0.10	0.00
80	0.42	1.00
81	0.39	0.15
82	0.32	0.10
203/1410	0.11	0.02
186	0.08	0.00
188	0.09	0.01
187	0.74	0.10
203/1407	0.17	0.03
196	0.25	0.03
197	0.23	0.04
198	0.04	0.00
179	0.53	0.88
किता-22	रकबा 14.95	लगान 15.10

(सी)-उपरोक्त बाबा राव बानेत्रा जू देव की कृषि भूमि गोपालपुरा खास, तहसील व जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

खसरा नम्बर	रकबा	लगान
1	2	3
194	0.62	0.75
287	0.66	0.37
599	8.69	9.25

1	2	3
600	5.62	12.62
644	6.20	6.19
किता-5	रकबा 21.77	लगान 39.19

(डी)-उपरोक्त बाबा राव बानेत्रा जू देव की कृषि भूमि गोपालपुरा खास, तहसील व जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

खसरा नम्बर	रकबा	लगान
1	2	3
615	0.70	0.88
615/721	0.58	1.37
615/722	0.04	0.00
615/723	1.40	3.31
किता-4	रकबा 2.72	लगान 5.56

(ई)-उपरोक्त बाबा राव बानेत्रा जू देव की कृषि भूमि ग्राम कारी, तहसील व जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

खसरा नम्बर	रकबा	लगान
1	2	3
2865	7.85	7.37
2866	1.63	1.63
3581	4.58	4.37
किता-3	रकबा 14.06	लगान 13.37

चल सम्पत्ति:-

1. राव बानेत्रा जू के स्मृति पाषाण
2. पुरानी दो तलवारों
3. एक गाय एवं बछिया
4. एक पलंग पेटी
5. वर्तन स्टील के 50 नग
6. गेती, फावड़ा, सब्बल व अन्य औजार.

मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज जारी.

(520)

एम. के. ठाकुर,  
अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

विश्व प्रेम मिशन, कार्यालय 105, कालिन्दी मिड टाउन कॉलोनी, सहारा सीटी के सामने, बायपास रोड, इन्दौर मध्यप्रदेश की ओर से श्री विकास पिता रमेशचन्द्र ठाकुर, निवासी-बी-1, श्रीकृष्ण कॉलोनी, किशनगंज थाने के पास, किशनगंज तहसील, महू, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर



इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	विश्व प्रेम मिशन
पता	:	कार्यालय 105, कालिन्दी मिड टाउन कॉलोनी, सहारा सीटी के सामने, बायपास रोड, इन्दौर (म. प्र.)
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 5,000/- (रु.पाँच हजार मात्र).

आज दिनांक 26 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

रजनीश कसेरा,  
रजिस्ट्रार.

(522)

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, सारंगपुर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा )

प्र.क्र. /बी-113/2015-16.

सारंगपुर, दिनांक 15 सितम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) देखिये]

शीर्षक :—गौ सेवा श्री कपिलेश्वर सार्वजनिक न्यास, कपिलेश्वर तीर्थ क्षेत्र, सारंगपुर.

पंजीयक, लोक न्यास के समक्ष.

क्र./1685/प्रवा-15.—चूँकि श्री ओमप्रकाश विजयवर्गीय पिता श्री वल्लभ विजयवर्गीय आदि निवासी सारंगपुर द्वारा श्री कपिलेश्वर गौ सेवा सार्वजनिक न्यास, कपिलेश्वर तीर्थ क्षेत्र, सारंगपुर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) के अन्तर्गत जो कि एक पंजीकृत धार्मिक एवं सामाजिक सेवा गतिविधि स्वरूप का होगा के पंजीयन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जिसकी चल एवं अचल संपत्ति परिशिष्ट में दर्शायी गई है. सर्व-संबंधित को यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे न्यायालय में विचारार्थ है.

जो भी व्यक्ति उक्त न्यास एवं संपत्ति में हित रखता हो उसके बारे में सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस कार्यालय सूचना-पत्र द्वारा सूचना दी जाती है कि वह अधिसूचना प्रकाशन से 30 दिवस के अन्दर सुझाव, आपत्ति दो प्रतियों में स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें. उक्त नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा.

न्यास की चल सम्पत्ति : 2,61,000.

न्यास की अचल सम्पत्ति : 5,00,000.

रमेश पाण्डेय,  
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(523)

### अन्य सूचनाएं

#### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर

सागर, दिनांक 08 सितम्बर, 2015

#### संशोधित आदेश

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 के तहत)

क्र./विधि/15/2214.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक विधि/2015/2166, दिनांक 31-08-2015 के द्वारा लाल बहादुर महिला प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बरा (बण्डा), जिला सागर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया जिसमें उल्लेखित पंजीयन क्रमांक 1233, दिनांक 16 मार्च, 2007 के स्थान पर पंजीयन क्रमांक 693, दिनांक 08 जुलाई, 1997 पढ़ा जावे.

यह संशोधित आदेश आज दिनांक 08 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

पी. आर. कावड़कर,  
उप-पंजीयक.

(521)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 147, दिनांक 28 जनवरी, 2008 द्वारा प्राथमिक वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., करेडी जिसका पंजीयन क्रमांक 1019, दिनांक 14 अक्टूबर, 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. मेहर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(524)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

श्री छत्रपति शिवाजी परस्पर सहकारी पेढी मर्या., उज्जैन पंजीयन क्रमांक 371, दिनांक 25 जून, 1974 आदेश क्रमांक/परि./1507, दिनांक 05 जुलाई, 2013 से परिसमापन में लाया जाकर श्रीमति हेमलता चदेल, सहकारी निरीक्षक, को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था की निष्क्रियता व अकार्यशीलता थी।

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की है।

अतः सहकारिता के सिद्धांतों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन सम्बन्धी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./1507, दिनांक 05 जुलाई, 2013 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69 (4) के अन्तर्गत श्री छत्रपति शिवाजी परस्पर सहकारी पेढी मर्या., उज्जैन, पंजीयन क्रमांक 371, दिनांक 25 जून, 1974 को पुनर्जीवित करता हूँ साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबंधक समिति का आगामी निर्वाचन होने तक श्रीमति हेमलता चदेल, सहकारी निरीक्षक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(524-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., मुडला परवल, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 788, दिनांक 28 मार्च, 1988 आदेश क्रमांक 519, दिनांक 01 मार्च, 2013 से परिसमापन में लाया जाकर श्री मुकेश जोशी, सहकारी निरीक्षक, को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था की निष्क्रियता व अकार्यशीलता थी।

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की है।

अतः सहकारिता के सिद्धांतों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन सम्बन्धी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./519, दिनांक 01 मार्च, 2013 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69 (4) के अन्तर्गत दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., मुडला परवल, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 788, दिनांक 28 मार्च, 1988 को पुनर्जीवित करता हूँ साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबंधक समिति का आगामी निर्वाचन होने तक श्री मुकेश जोशी, सहकारी निरीक्षक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

मनोज जायसवाल,

उप-पंजीयक.

(524-B)



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2015-आश्विन 17, शके 1937

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 10 जून, 2015

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश कहीं-कहीं मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील डबरा (ग्वालियर), सेवदा (दतिया), जतारा (टीकमगढ़), गौरीहार, नौगांव, छतरपुर, राजनगर, बिजावर, बक्स्वाहा (छतरपुर), अजयगढ़, पन्ना, गुन्नौर (पन्ना), बीना, सागर (सागर), पाली (उमरिया), नागदा (उज्जैन), मो. बडोदिया, शाजापुर (शाजापुर), पानसेमल, पाटी (बड़वानी), रायसेन, बरेली बाड़ी (रायसेन), घोड़ाडोंगरी, मुल्ताई (बैतूल), सीहोरा, जबलपुर, मझौली (जबलपुर), निवास, बिछिया, नारायणगंज (मण्डला), छिन्दवाड़ा, परासिया, तामिया, पांदुर्ना, अमरवाड़ा, चौरई, बिछुआ, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील घटिया (उज्जैन), गैरतगंज (रायसेन), आमला (बैतूल) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील जुन्नारदेव (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील बेगमगंज, सिलवानी, उदयपुरा (रायसेन) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.—जिला ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, मंदसौर, नीमच, देवास, झाबुआ, धार, खरगौन, बड़वानी, भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर व सिवनी में खरीफ फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.—जिला बुरहानपुर में कपास व शहडोल में खरीफ फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. फसल स्थिति.—

5. कटाई.—जिला होशंगाबाद में फसल मूंग की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, टीकमगढ़, सागर, शहडोल, उमरिया, बड़वानी व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.
8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 10 जून, 2015

जिला/तहसीलें	1. ससाह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी ( कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
<b>जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. अम्बाह	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	..				
6. कैलारस	..				
<b>जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. श्योपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	..				
<b>जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
<b>जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. ग्वालियर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	4.4		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	..				
4. घाटीगांव	..				
<b>जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	15.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	..				
<b>जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बदरवास	..				

1	2	3	4	5	6
<b>*जिला अशोकनगर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
<b>जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राधोगढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
<b>जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	4.0				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
<b>जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. ..
1. लवकुशनगर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	1.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	4.2				
4. छतरपुर	3.2				
5. राजनगर	8.2				
6. बिजावर	5.0				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बक्स्वाहा	6.0				
<b>जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	2.6		4. (1) मूँग, जौ, राई-सरसों, अलसी, प्याज	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	11.0		अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मक्का,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	11.0		तुअर, उड़द, सोयाबीन, तिल, गेहूँ,		
4. पवई	..		चना, मसूर, आलू कम.		
5. शाहनगर	..		(2) ..		
<b>जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	2.4		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	..		समान.		
4. सागर	2.4		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. हटा	..		4. (1) मूंग, उड़द, गन्ना, मक्का.	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. बटियागढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
<b>जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. ..
1. रघुराजनगर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिहपुर	..				
<b>जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	..		मसूर, अलसी, अरहर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	..		(2) ..		
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकुर्चिलियान	..				
<b>जिला शहडोल :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
<b>जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
<b>जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	1.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गोपदवनास	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. सिंहावल	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				
<b>जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. ..
1. चितरंगी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	..				
<b>जिला मन्दासौर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. ..
1. सुवासरा-टप्पा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हौरगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दसौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुन्धड़का	..				
9. संजीत	..				
10. कयामपुर	..				
<b>जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. जावद	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	..				
<b>जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	..		4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
<b>जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	..				
4. घटिया	22.0				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	8.0				
<b>जिला आगर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़ौद	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
<b>जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. मो. बड़ोदिया	12.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	2.8		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. गुलाना	..				



1	2	3	4	5	6
<b>जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
<b>जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. थांदला	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
<b>जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जोवट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोण्डवा	..				
5. भामरा	..				
<b>जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. बदनावर	..		4. (1) गन्ना अधिक. गेहूँ, चना, कम.	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
<b>जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. महु	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
<b>जिला खरगौन :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूंगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..		अलसी, राई-सरसों, अधिक. ज्वार,	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	..		धान, तुअर, गेहूँ, चना कम.		
4. खरगौन	..		(2) ..		
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..		4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	7.0				
6. पाटी	4.0				
7. निवाली	..				
<b>*जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. खण्डवा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पंधाना	..		(2) ..		
3. हरसूद	..				
<b>जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. कपास की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..				
<b>जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मसूर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..		अधिक. गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	..		(2) ..		
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचौर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
<b>जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. लटेरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
<b>जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
<b>*जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. आष्टा	..		(2) ..	..	
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. रायसेन	6.2		4. (1) गेहूँ, जौ, राई-सरसों, अलसी, मटर अधिक. चना, मसूर, लाख तिवड़ा कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	18.6		(2) ..		
3. बेगमगंज	69.0				
4. गौहरगंज	..				
5. बरेली	6.2				
6. सिलवानी	74.0				
7. बाड़ी	10.0				
8. उदयपुरा	133.0				
<b>जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..		4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	1.1		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	6.0				
7. आठनेर	..				
8. आमला	33.0				
<b>जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं मूंग फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		(2) ..		
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढी	..				
<b>जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) गेहूँ.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) ..		
3. टिमरनी	..				
<b>जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	3.2		4. (1) मूंग अधिक. उड़द कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	..		(2) ..		
3. जबलपुर	08				
4. मझौली	1.0				
5. कुण्डम	..				
<b>जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) ..		
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
<b>जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	11.0		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	6.2		मटर, लाख, अलसी सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
4. मण्डला	..				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	06				
<b>जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	..		4. (1) तुअर बिगड़ी हुई. राई-सरसों, गेहूँ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बजाग	..		चना, मसूर, अलसी, मटर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुरा	..		(2) ..		
<b>जिला छिन्दवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	4.2		4. (1) गेहूँ, चना तुअर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	49.3		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	10.2				
4. जामई (तामिया)	7.0				
5. सोंसर	..				
6. पांडुर्णा	9.4				
7. अमरवाड़ा	14.2				
8. चौरई	16.2				
9. बिछुआ	13.5				
10. हरई	..				
11. मोहखेड़ा	5.2				
<b>जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	..		4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	..		मूँफली, गन्ना, अधिक ज्वार, कोदों-	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	..		कुटकी, सोयाबीन, गेहूँ, मटर, मसूर,		
4. बरघाट	..		लाख, तिबड़ा, अलसी, राई-सरसों		
5. उरई	..		कम. तिल, सन्, चना समान.		
6. घंसौर	..		(2) ..		
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
<b>*जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बालाघाट	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. लाँजी	..		(2) ..		
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— \*जिला अशोकनगर, खण्डवा, सीहोर, बालाघाट से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,  
आयुक्त,  
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(519)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2015.